



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 295]
No. 295]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 1984/आषाढ़ 7, 1906
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1984/ASADHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 28 जून 1984

आई डी आर ए/82, तारीख 21 सितम्बर 1982 का० आ० 677(अ), तारीख 21 सितम्बर 1983/ का० आ० 934(अ) 18 क/आई डी आर ए/83 तारीख 29 दिसम्बर, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को 30 जून, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है अवधि के लिए बढ़ाया गया था;

का० आ० 466(अ)/18 क/आई डी आर ए/84:-केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 541 (अ)/18 क/आई डी आर ए/79, तारीख 22 सितम्बर 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) सचिव रुग्ण और बन्द उद्योग विभाग जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग कहा जाता है पश्चिमी बंगाल कलकत्ता को मैसर्स नेशनल आयरन एंड स्टील कम्पनी लि० हावड़ा नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध 21 सितम्बर 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था। और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 682(अ)/18 क/

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 4 (12)/76 सी यूएस]
ए० पी० सरवत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 28th June, 1984.

No. S.O. 466(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 541(E)|18AA|IDRA|79, dated the 22nd September, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Department, now called as Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, Calcutta to take over the management of the whole of the Industrial Undertaking known as Messrs National Iron and Steel Company Limited, Howrah for a period of three years upto and inclusive of the 21st day of September, 1982;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of

Industrial Development) No. S.O. 682(E)|18AA|IDRA|82, dated the 21st September, 1982, S.O. 677 (E), dated the 21st September, 1983, S.O. 934 (E)|18AA|IDRA|83, dated the 29th December, 1983, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th June, 1984;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1984.

[F. N.O 4(12)|76-CUS|
A. P. SARWAN, Jt. Secy.]